



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 9—फरवरी 15, 2008 (माघ 20, 1929)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 9—FEBRUARY 15, 2008 (MAGHA 20, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2008

थल सेना शाखा

सं. 66, दिनांक 28 जनवरी 2008.---संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित व्यक्तियों को, उनके नाम के आगे लिखी तारीख से, रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी (ग्रुप बी राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

नाम और नियुक्ति की तारीख

श्री पिन्वुमणी केसवसरमा, 20 सितम्बर 2007

श्री रामेश्वर नाथ सिंह चौहान, 09 अक्टूबर 2007

श्री अजय कुमार गुप्ता, 19 नवम्बर 2007

श्री विजय राव, 23 नवम्बर 2007

सी. जे. जोस
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 67, दिनांक 30 जनवरी 2008.---राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित व्यक्तियों को, उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से,

8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

नाम, स्थापना एवं नियुक्ति की तारीख

श्री मनोहर सिंह जगत, एडीआरडीई, आगरा, 14.04.2005

श्री प्रियव्रत शर्मा, एडीआरडीई, आगरा, 27.04.2006

श्री दिव्य कुमार गर्ग, अनुराग, हैदराबाद, 14.04.2005

श्री लहानु करभारी गिटे, एआरडीई, पुणे, 06.03.2003

सुश्री सुलेखा पारखी, एआरडीई, पुणे, 17.08.2005

श्री राजीव कुमार सिंह, एआरडीई, पुणे, 27.04.2006

श्री सुरजीत कुमार सिन्हा, एएसएल, हैदराबाद, 14.04.2005

श्री संजय बरुआ, एएसएल, हैदराबाद, 16.08.2005

श्री सुनील कुमार सोनी, डील, देहरादून, 27.04.2006

सुश्री पूजा गुप्ता, डील, देहरादून, 27.04.2006

श्री इमरान शरीफ, डील, देहरादून, 14.04.2005

श्री कृष्ण किशोर, डिपास, दिल्ली, 17.03.2005
 श्री बनोधु श्रीनु, डीएमआरएल, हैदराबाद, 14.04.2005
 श्री सत्यनारायण अदलागट्टा, डीएमआरएल, हैदराबाद, 14.04.2005
 श्री एस एस सतीश कुमार, डीएमआरएल, हैदराबाद, 14.04.2005
 श्री चंद्रशेखर वर्मा, डीआरडीई, ग्वालियर, 27.04.2006
 सुश्री वंदना गौतम, डीआरडीई, ग्वालियर, 14.08.2006
 श्री राजेन्द्र प्रसाद बुनकर, डीआरडीई, ग्वालियर, 06.06.2005
 श्री शिव प्रकाश शर्मा, डीआरडीई, ग्वालियर, 01.06.2005
 श्री अभिषेक सिंह शाक्य, डीआरडीएल, हैदराबाद, 14.04.2005
 श्री राजेश कुमार, डीआरडीएल, हैदराबाद, 14.04.2005
 सुश्री वलसंगदला कमला, डीआरडीएल, हैदराबाद, 14.04.2005
 श्री श्रीनिवास राजू सारीकोंडा, डीआरडीएल, हैदराबाद, 14.04.2005
 श्री चंद्रकांत अन्नम, डीआरडीएल, हैदराबाद, 14.04.2005
 श्री सौमेन बनर्जी, डीआरएल, तेजपुर (असम), 26.07.2005
 डॉ. सी राजेन्द्रन, डीआरएल, तेजपुर, 07.01.2004
 डॉ. जाधव सुनील एकनाथ, एफआरएल, लेह, 02.06.2005
 डॉ. दोर्जे अण्चोक, एफआरएल, लेह, 11.04.2005
 श्री हेमंद्र कुमार गोर्गोई, एचईएमआरएल, पुणे, 13.06.2005
 श्री भारत भूषण हरित, एचईएमआरएल, पुणे, 06.09.2004
 श्री दवारे चेतन रमेश, एचईएमआरएल, पुणे, 12.04.2004
 श्री सरोज कुमार साहू, एचईएमआरएल, पुणे, 14.06.2005
 श्री इजाज बेग मिर्जा, एएसएल, हैदराबाद, 14.04.2005
 श्री सुधीर, एचईएमआरएल, पुणे, 13.06.2005
 श्री अनंत नारायण भट्ट, इनमास, दिल्ली, 30.03.2005
 श्री हरिनाथ येरा, आईटीएम, मसूरी, 06.03.2003
 श्री अनसुया साहू, आईटीआर, बालासोर, 25.01.2002
 सुश्री शालू मलान, लैसटेक, दिल्ली, 22.08.2005
 श्री जी श्री नागमहेश्वर, एलआरडीई, बैंगलोर, 14.04.2005
 श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, एलआरडीई, बैंगलोर, 14.04.2005
 श्री भीष्म त्रिपाठी, एलआरडीई, बैंगलोर, 14.04.2005
 सुश्री राशि जैन, एलआरडी, बैंगलोर, 14.04.2005
 श्री कैलाश चंद सैनी, एनएमआरएल, अंबरनाथ, 14.04.2005
 श्री वीराचारी येडिडी, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम 14.04.2005
 श्री फिरके सचिन नारायण, आर एण्ड डीई (ई), पुणे, 12.04.2004

श्री बंसोडे अरविंद फकीरप्पा, आरएण्डडीई (ई), पुणे, 27.04.2006
 श्री केशव राव चितीमडी, आरसीआई, हैदराबाद, 14.04.2005
 श्री राजेश कुमार रेड्डी, आरसीआई, हैदराबाद, 14.04.2005
 श्री बंदी ज्योत्सना, आरसीआई, हैदराबाद, 14.04.2005
 श्री अरिंदम दास, आरसीआई, हैदराबाद, 14.04.2005
 सुश्री स्मृता सिंह, डब्ल्यूईएसईई, नई दिल्ली, 14.04.2005
 सुश्री श्रुति शर्मा, डीआईपीआर, दिल्ली, 08.06.2005

बी. पी. पांडे
 सह निदेशक

(सेना शाखा)

सं. 68, दिनांक 30 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति महोदय, यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना
 अल्पकालीन कमिशन
 (सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान के पद पर (परखा पर)

कप्तान कुश्मव्यागरि गोपीनाथ (एमएस-15429एम), एएमसी, 22.01.2007

कप्तान वरुण अशोक भिमराव (एमएस-15437एल), एएमसी, 22.01.2007

कप्तान त्रिनयन कुमार सिंह (एमएस-15449ए), एएमसी, 22.01.2007

कप्तान ओक शैलेश कार्तिक (एमएस-15492एफ), एएमसी, 20.03.2007

कप्तान सुदीप कुमार (एमएस-15553एन), एएमसी, 17.04.2007

कप्तान सचिन कुमार दुबे (एमएस-15555वाई), एएमसी, 17.04.2007

कप्तान केदार प्रदीप महादेव (एमएस-15385ए), एएमसी, 22.09.2006

अनुदेश 14/79 द्वारा यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेवा
 अल्पकालीन आयोग
 कप्तान के पद पर

कप्तान राकेश कुमार गौतम (एमएस-15393वाई), आयोग की तिथि 22.09.2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22.09.2004 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डिप्लोमा इन एनसथिसियोलॉजी के लिए 24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं

गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान चेतना अरोड़ा (एमएस-15392डब्ल्यू), आयोग की तिथि 22.09.2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22.09.2003 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर आफ मेडीसिन के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान भारत (एमएस-15391एन), आयोग की तिथि 22.09.2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22.09.2003 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान संदीप राणा (एमएस-15387एल), आयोग की तिथि 22.09.2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22.09.2004 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डिप्लोमा इन एनैस्थीसियोलोजी के लिए 24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान गजभिये देवेन्द्र जानबा (एमएस-15244एल), आयोग की तिथि 21.04.2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21.10.2002 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति/स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर आफ मेडीसिन (एनैस्थीसियोलोजी) के लिए (36+6) 42 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान रमेश दास (एमएस-15243एच), आयोग की तिथि 21.04.2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21.10.2002 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति/स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी के लिए (6+36) 42 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान पंकज कुमार गोगोई (एमएस-15242ए), आयोग की तिथि 21.04.2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21.04.2003 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

राष्ट्रपति महोदय, यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

लेफ्टि नीलम कुमार सिंह (एमएस-15540डब्ल्यू), एएमसी, 26.03.2007

लेफ्टि सुदीप आजाद (एमएस-15546एक्स), एएमसी, 26.03.2007

लेफ्टि सोनम सिंह सचन (एमएस-15547ए), एएमसी, 26.03.2007

लेफ्टि मनोज कुमार (एमएस-15504एल), एएमसी, 26.03.2007

लेफ्टि मनमीत सिंह रनधावा (एमएस-15510वाई), एएमसी, 26.03.2007

लेफ्टि सुजित शेखर सिन्हा (एमएस-15513एम), एएमसी, 26.03.2007

लेफ्टि रणजीत (एमएस-15515एक्स), एएमसी, 26.03.2007

राष्ट्रपति, सहर्ष सेना अनुदेश 40/73 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी) अस्थायी कमीशन अधिकारियों को 20 मार्च 2007 से नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

अस्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा अधिकारी) (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर 20 मार्च 2007 से प्रभावी (परख पर)

पद, नाम, पुराना व्यक्तिगत सं., नया व्यक्तिगत सं., कमीशन की तिथि

हवलदार हरी दास बी 13969699एल (एनटीएस-175444एल), 20.03.2007

हवलदार बिरेन्द्र सिंह बिष्ट 13982284पी (एनटीएस-17545एन), 20.03.2007

हवलदार उपेन्द्र सिंह चौहान 13985159डब्ल्यू (एनटीएस-17546डब्ल्यू), 20.03.2007

नायक थोमस कुरियन 13988319डब्ल्यू (एनटीएस-17547वाई), 20.03.2007

नायक वीमेश कुमार टी एम 13998556एन (एनटीएस-17548एफ), 20.03.2007

नायक लक्ष्मी पथी 13998879डब्ल्यू (एनटीएस-17549के), 20.03.2007

नायक शशी कान्त 13999349एन (एनटीएस-17550वाई), 20.03.2007

सिपाही कैलाश चन्द्र खिचर 13994902एफ (एनटीएस-17551एफ), 20.03.2007

सिपाही रियाज 13999306वाई (एनटीएस-17553एम), 20.03.2007

सिपाही दीपक राव एस 15411124पी (एनटीएस-17554पी), 20.03.2007

सिपाही जियालुगपो गैंगमे 15411397एक्स (एनटीएस-17555एम), 20.03.2007

सिपाही मनील कुमार यादव 15412300एन (एनटीएस-17556ए), 20.03.2007

राष्ट्रपति महोदय, यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना
अल्पकालीन कमीशन
(सेना चिकित्सा सेवा)

फ्ला लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परखा पर)

फ्ला लेफ्टि जया तिवारी (एमएस-15447एम/28888), एएमसी, 22.01.2007

फ्ला लेफ्टि अमर वाष्णीय (एमएस-15482एक्स), एएमसी, 22.01.2007

फ्ला लेफ्टि मानवेन्द्र अधिकारी (एमएस-15551एच/28891जी), एएमसी, 20.03.2007

फ्ला लेफ्टि सफिया अहमद (एमएस-15552एल/28904आर), एएमसी, 17.04.2007

फ्ला लेफ्टि ज्योति देवी (एमएस-15559पी/28866एच), एएमसी, 22.09.2007

अनुदेश 14/79 द्वारा यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना
अल्पकालीन कमीशन

फ्ला लेफ्टिनेन्ट के पद पर

फ्ला लेफ्टि सचिन रावौर एमएस-15390एल (एफ-28868आर), आयोग की तिथि 22.09.2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22.09.2003 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी (ऑफथलमोलॉजी) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

फ्ला लेफ्टि संचिता सिंह एमएस-15475एफ (एफ-28879एफ), आयोग की तिथि 22.01.2007 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22.07.2006 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

कप्तान के पद पर

कप्तान तापस बिस्वास एमएस-15440एल आयोग की तिथि 22.01.2007 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22.07.2006 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

राष्ट्रपति महोदय, यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन
(सेना चिकित्सा अधिकारी)

फ्ला ऑफिसर के पद पर (परखा पर)

फ्ला ऑफिसर मुस्ताजिभ अलि (एमएस-15496एक्स/28892के), एएमसी, 26.03.2007

फ्ला ऑफिसर वरुण जैन (एमएस-15500पी/28901एफ), एएमसी, 26.03.2007

जी. रवीन्द्रनाथ
ब्रिगे.

उप डीजीएफएमएस (पर्स.)

एकीकृत मुख्यालय-रक्षा मंत्रालय (नौसेना)
प्रशासन निदेशालय (सिव)

सं. 69, दिनांक 25 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत उनके नामों के आगे उल्लिखित समयावधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं :--

क. श्री पी एन वलीचा, 30.11.2007 से 23.02.2008

ख. श्रीमती सुदेश एलावादी, 30.11.2007 से 23.02.2008

ग. श्री वी वी मिश्रा, 30.11.2007 से 23.02.2008

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (ए)

वायु शाखा

सं. 70, दिनांक 29 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं :--

भारतीय वायु सेना
मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर प्रबोध शुक्ला (28363) और आनन्द स्वरूप अवस्थी (28364) 05 जनवरी 2005 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को प्रदत्त औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी

गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
यू/टी ऑफिसर से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में
मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर प्रबोध शुक्ला (28363) और आनन्द स्वरूप अवस्थी (28364) 17 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

एन. विजय कुमार
विंग कमांडर
जे डी पी ओ-3 (डी)

(सेना शाखा)

सं. 71, दिनांक 29 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को परख अवधि पूरा होने पर पक्का करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा अधिकारी) (गैर तकनीकी)

व्यक्तिगत सं., पद, नाम एवं कमीशन की तिथि

एनटीआर-16711के कप्तान मोहन सिंह कपकोटी, 28.04.2005

एनटीआर-16712एम कप्तान जयवेलु एस, 28.04.2005

एनटीआर-16723बाई कप्तान विरेन्द्र कुमार पान्डेय, 28.04.2005

एनटीआर-16703एल कप्तान मनोज के वी, 02.04.2004

एनटीआर-16705डब्ल्यू कप्तान शेख जमीर अहमद, 02.04.2004

एनटीआर-16715ए कप्तान कैलाश पी एस, 28.04.2005

एनटीआर-16716एच कप्तान सुनिल बाई, 28.04.2005

अस्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा अधिकारी) (गैर तकनीकी)

व्यक्तिगत संख्या, पद, नाम, कमीशन की तिथि

एनटीएस-17499के कप्तान राजेश कुमार, 02.04.2004

एनटीएस-17505एम कप्तान राजेन्द्र सिंह, 02.04.2004

एनटीएस-17542ए लेफ्टिनेन्ट संतोष सी एच, 07.04.2006

एनटीएस-17543एच लेफ्टिनेन्ट राम कृष्णा प्रताप सिंह सिसोदिया, 07.04.2006

एनटीएस-17506पी कप्तान नरेन्द्र सिंह, 28.04.2005

एनटीएस-17528एन लेफ्टिनेन्ट सुभाष राम, 07.04.2006

एनटीएस-17532डब्ल्यू लेफ्टिनेन्ट जोन बेबी, 07.04.2006

एनटीएस-17537पी लेफ्टिनेन्ट सिजिमोन मैथ्यू, 07.04.2006

एनटीएस-17538एक्स लेफ्टिनेन्ट अमर नाथ राय, 07.04.2006

एनटीएस-17539ए लेफ्टिनेन्ट अमित सिंह, 07.04.2006

एनटीएस-17536एम लेफ्टिनेन्ट प्रसाद एम कुरूप, 07.04.2006

जी. रविन्द्रनाथ
ब्रिगे.

उप डीजीएफएमएस (पर्स.)

वायु शाखा

सं. 72, दिनांक 29 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों को जिन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई दिनांक से पुष्टि करते हैं :--

भारतीय वायु सेना
मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर आशा चिक्कन्ना (28365) 17 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई दिनांक से पुष्टि करते हैं :--

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर प्रबोध शुक्ला (28363) और आनन्द स्वरूप अवस्थी (28364) 17 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर श्री वक्करमणन (28650), राहुल जगोता (28651), जाधव मंदार गोविंद (28652), पंकज धिमान (28653), अमित रोहानी (28654), आदित्य दत्ता राय (28655), ठाकुर दास निनाद श्रीकांत (28656), प्रवीर शुक्ला (28657), पकलापति नरद वर्मा (28658), चेतन प्रदीप देशपांडे (28660), सिंह अभिमन्यु क्षेत्री (28661), गौरव सिंह (28662), तरनजीत ऐरौन (28663), गुरप्रीत सिंह (28664), नूकतोया नरसिंह प्रज्योत (28665), अनुपम यादव (28667), जितद्र कुमार मक्कड (28668), अरुण कुमार (28669), धीरज कुमार (28670), तरुण पंडित (28671), धिरद सिंह जयरा (28672), बिसेटी भासकर किरन (28673), गौरव शुक्ला (28674), विवेक पालीवाल (28675), अरुण चंदन (28676), आर एल नागेश कुमार (28677), दिग्विजय सिंह कटोच (28678), अमोल सुधीर कैलकर (28679), विपुल गोयल (28680), जिनु प्रवीण करतेडत (28681), रामू राजद्रन (28682), रिषि कुमार (28683), अनुज प्रसाद (28684), सौरभ अधिकारी (28685), और सिद्धार्थ शर्मा (28686), बरबिंदर सिंह (28687), विक्रंत भारद्वाज (28688), अनिमेष पाटनी (28689), शंकर थापा (28690), निखिल भट्ट (28691), विवेक चौहान (28692), फर्नांडीस सिडनी ऐडवर्ड (28693), आशुतोष दाश (28694), प्रमद मोर (28695), शीजू राज (28696), अनिल अहलावत (28697), रोबिन सबैस्टिन (28698), अंकित उनियाल (28699), वरुन वकील (28700), कुमार गौरव गर्ग (28701), मंदीप भंड (28702), शभम् मिश्रा (28704),

अंकुर चौधरी (28705), वै चैतन्या (28706), हरदीप सिंह राणा (28707), मोहित राणा (28708), सैकेत डोगरा (28709), मयंक पालीवाल (28710), अभिनव भट्टाचार्या (28711), शान्तनु वर्मा (28712), अब्दुलसमद पागे (28713), गौरव प्रीत सिंह बराड़ (28714), दीरावत सुधाकर (28715), सीनिअप्पन सेलव कुमार (28716), राहुल गुप्ता (28717), विकास बरगट (28718), भारत भंडारी (28720), रजत शर्मा (28721), अश्विनी कुमार पांडे (28722) और सुमित दोभल (28724) 17 दिसम्बर 2005 से प्रभुत्व।

एन. विजय कुमार
विंग कमांडर
जे डी पी ओ-3 (डी)

थल सेना विभाग

सं. 73, दिनांक 24 जनवरी 2008.--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना क्वचित कोर

स्थाई रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार गुरमीत सिंह (जेसी-238045एन), 01 जुलाई 2005

रिसालदार शहतास सिंह (जेसी-237900एल), 09 अगस्त 2005 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

रिसालदार राजेन्द्र पाल (जेसी-236986एच), 12 दिसम्बर 2005 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

रिसालदार बलवीर सिंह (जेसी-238738एल), 01 सितम्बर 2006

रिसालदार कुलदीप सिंह वर्मा (जेसी-239140एम), 01 दिसम्बर 2006

रिसालदार भोपाल सिंह (जेसी-236554एन), 01 दिसम्बर 2006

रिसालदार शियोराम सिंह पंवार (जेसी-236889एल), 01 दिसम्बर 2006

रिसालदार मलम सिंह (जेसी-239114एल), 23 दिसम्बर 2006 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

रिसालदार महेश चन्द्र (जेसी-238367एन), 02 फरवरी 2007 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

रिसालदार शियो बहादुर सिंह (जेसी-238637एक्स), 02 फरवरी 2007 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

रिसालदार राम भरोसी वर्मा (जेसी-239493एम), 21 फरवरी 2007 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

रिसालदार राम सिंह भाटी (जेसी-237330ए), 01 मार्च 2007

रिसालदार तरलोचन सिंह (जेसी-238711एन), 06 मार्च 2007 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

रिसालदार कृष्ण लाल (जेसी-238005एम), 11 मार्च 2007 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

रिसालदार भांवर सिंह राठौर (जेसी-239502एच), 03 अप्रैल 2007 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

रिसालदार रौशन लाल शर्मा (जेसी-238018के), 05 अप्रैल 2007 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

रिसालदार महेश चन्द्र (जेसी-238623एक्स), 08 अप्रैल 2007 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

रिसालदार अंग्रेज कुमार (जेसी-238761वाई), 01 मई 2007 *

रिसालदार जय सिंह (जेसी-238142एल), 15 मई 2007 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

रिसालदार देवा राम जाट (जेसी-237951वाई), 17 मई 2007 *

*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है)

रिसालदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-239300एफ), 01 सितम्बर 2007

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार समुन्दर सिंह (सं. 1076459डब्ल्यू अब जेसी-242168एक्स), 07 मई 2007 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

दफादार नाथा राम चौधरी (सं. 1077024ए अब जेसी-242171एक्स), 05 मई 2007 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

दफादार चन्द्र सेखरन के (सं. 1074432ए अब जेसी-242176डब्ल्यू),
01 मई 2007

दफादार अब्राहम समद (सं. 1077230के अब जेसी-242177वाई),
10 मई 2007 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

दफादार सुभाष चन्दर (सं. 1077787डब्ल्यू अब जेसी-242179के),
03 मई 2007 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

दफादार बन्त सिंह (सं. 1077384डब्ल्यू अब जेसी-242180वाई),
01 मई 2007

दफादार मदन लाल (सं. 1077542ए अब जेसी-242181एफ),
03 मई 2007 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

दफादार बिरेन्द्र सिंह (सं. 1076910एक्स अब जेसी-242184पी),
14 मई 2007 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

दफादार शिवराम शर्मा (सं. 1073831एक्स अब जेसी-242186ए),
01 मई 2007

दफादार एम डी बोली मोहम्मद (सं. 1075653वाई अब जेसी-242187एच), 01 मई 2007

दफादार अदित्य करमाकर (सं. 1075761एच अब जेसी-242188एल),
01 मई 2007

दफादार दौलत राम (सं. 1078192एल अब जेसी-242190एच),
01 मई 2007

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजीमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राम फल (जेसी-418484एफ), 01 नवम्बर 2007

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जमशेद खान (जेसी-419553वाई), 25 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पवार राजेन्द्र कुमार विनायक (जेसी-419957एफ), 23 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कैलाश चंद (जेसी-420190एम), 13 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहनन कुमार पी (जेसी-419539एम), 12 नवम्बर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अगस्त 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-420262एल), 20 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार विजयन के (जेसी-420301वाई); 25 सितम्बर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जतीन कुमार नाथ (जेसी-420245एल), 29 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार खेम बहादुर थापा (जेसी-420247डब्ल्यू), 11 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम बहादुर (जेसी-419509पी), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार राम लछन (जेसी-419629एन), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार पवनन वी (जेसी-419910डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार सोम राज (जेसी-420013एम), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार लाल चंद (जेसी-420115एच), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार सुभाष चंद (जेसी-420116एल), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार बम बहादुर थापा (जेसी-420308एच), 01 नवम्बर 2007

सूबेदार मेजर के रैंक में

नायब सूबेदार नरेश सिंह (जेसी-418805एन), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार मोहन चन्द्र जोशी (जेसी-418947एल), 01 अक्टूबर 2007

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कशोर लाल (जेसी-419184एम), 23 मार्च 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धरम पाल (जेसी-419410एम), 24 मई 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार वजीर सिंह (जेसी-419577एच), 13 जुलाई 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर यादव (जेसी-419911वाई), 01 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम अवतार सिंह बघेल (जेसी-420058एम), 26 जुलाई 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सत्य भान प्रसाद (जेसी-420101एच), 08 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बल बहादुर (जेसी-420161एक्स), 16 अगस्त 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सोनप्पा चन्द्रप्पा बायपारागी (जेसी-420185एफ), 24 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार श्याम मोहन (जेसी-420072ए), 08 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार तेज बहादुर थापा (जेसी-420244एच), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार अनिल कुमार आर (जेसी-419633डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-419791एल), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-420012के), 16 अक्टूबर 2007 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार विनोद कुमार सिंह (जेसी-420085डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार खुब राम (जेसी-420088डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार प्रकाश सिंह (जेसी-420273एक्स), 01 अक्टूबर 2007

जे. राय चौधरी
अवर सचिव

सं. 74, दिनांक 30 जनवरी 2008.---राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

अस्थायी कमीशन

लेफ्टिनेन्ट से कप्तान

पद, नाम, व्यक्तिगत सं. एवं पदोन्नति की तिथि

लेफ्टिनेन्ट रविन्द्र जांभले (एनटीएस-17525ए), 28.04.2007

अल्पकालीन सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

सर्जन लेफ्टिनेन्ट से सर्जन लेफ्टिनेन्ट कमांडर के पद पर

सर्जन लेफ्टि उमाकान्त बिरिहा (एमएस-14401ए) (75799डब्ल्यू),
01.03.2006

सर्जन लेफ्टि अंजू कुमारी (एमएस-14594एल) (75816एच),
24.09.2006

सर्जन लेफ्टि कृष्णाकारा कृष्णन डी (एमएस-14575ए) (75814बी),
08.03.2007

सर्जन लेफ्टि असेक एयरन (एमएस-14596डब्ल्यू) (75817के), 28.
03.2007

सर्जन लेफ्टि अमिताभ मेहता (एमएस-14617एफ) (75818एन),
03.04.2007

सर्जन लेफ्टि माधुरी भट्टा (एमएस-15247वाई) (75923ए),
21.04.2007

जी. रवीन्द्रनाथ

ब्रिगेडियर

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

सं. 75, दिनांक 30 जनवरी 2008.---राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक नं., नाम, आर्म एवं मूल रैंक की तिथि

आईसी-37768 दिनकर अदीब (जेएजी), 01.10.2005

लेफ्टि कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

आईसी सं., नाम, आर्म एवं सर्वटेंटिव तिथि

36738 मोहिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

37151 चतुर्भुज नाथ, सिग्नल्स, 16 दिसम्बर 2004

37748 सुशील शर्मा, इंजीनियर्स, 29 अप्रैल 2007

38624 आर के पाण्डे, आईसी, 22 दिसम्बर 2005

38999 बलदेव चन्द्रा, आर्टी, 07 जून 2006

39498 प्रभाज चन्द्रा, गार्ड्स, आर्टी, 13 जून 2007

39597 एस एन उबगरडे, आर्टी, 13 जून 2007

39713 किशोर उप्पल, आर्टी, 13 जून 2007

41441 प्रदीप माथुर, सिग्नल्स, 18 जून 2007

41446 राम कुमार दुबे, सिग्नल्स, 18 जून 2007

एसएल-02650 अदीप मजूमदार, एपीटीसी, 16 दिसम्बर 2004

31280 आर के चौधरी, आईसी, 16 दिसम्बर 2004

31367 आर पी सिंह, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

33330 एस के मिश्रा, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

33611 एस पी सिंह, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

35161 आर के तालुकदार, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

35325 एस डी गुल्लैग, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

37430 प्रमोद कुमार, आर्टी, 01 मई 2005

- 37564 डी पी एस थालौर, इन्फैन्ट्री, 30 अप्रैल 2006
- 37631 वीरेन्द्र कुमार, आर्टी, 30 अप्रैल 2006
- 37728 अनिल टंडन, एओसी, 14 नवम्बर 2006
- 37774 रमेश बी चिरुमामिला, इन्फैन्ट्री, 29 अप्रैल 2007
- 37775 राज कुमार राहुल, इन्ट, 29 अप्रैल 2007
- 38591 ए के वैद, एसी, 22 दिसम्बर 2005
- 38692 तरण सी बोरा, इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006
- 38932 रवि बी, आर्टी, 07 जून 2006
- 39040 राजिन्दर कुमार, इन्जीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 39743 पी एस सरना, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39821 पाला राम, आईसी, 13 जून 2007
- 39827 जे एस धिमन, आईसी, 13 जून 2007
- 41454 जी महादेवन, सिग्नल्स, 18 जून 2007
- एसएल-03582 जयपाल सिंह दूडा, एसएलक्यूएम, 13 जून 2007
- एसएल-02741 एन पी शर्मा, एपीटीसी, 16 दिसम्बर 2004
- 27250 एस के कौल, गार्ड्स, 16 दिसम्बर 2004
- 36145 प्रोवीर सिंह, एओसी, 16 दिसम्बर 2004
- 37666 सतनाम सिंह, आर्टी, 30 अप्रैल 2006
- 38864 उदय शंकर, इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006
- 38875 बी एस चौधरी, इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006
- 39474 शशि राणा, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39477 पी सी चन्देल, आर्टी, 13 जून 2007
- 39503 दीपक कुमार पुन, एससी, 13 जून 2007
- 39514 श्याम कुमार, एएडी, 13 जून 2007
- 39527 विवेक चौधरी, आर्टी, 13 जून 2007
- 39531 बी जे एस हंसरा, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39534 यू सी दूबे, एएडी, 13 जून 2007
- 39541 टी दिवाकरण, आर्टी, 13 जून 2007
- 39553 ए एस ग्रेवाल, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39561 एस सी शर्मा, आर्टी, 13 जून 2007
- 39589 मलारा त्रिलोक सिंह, आर्टी, 13 जून 2007
- 39599 डी एस भाटी, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39602 रविन्दर मोहन गौड़, मैक इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39611 एस के जोशी, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39622 पी के धौमस, मैक इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39629 राम कुमार, आर्टी, 13 जून 2007
- 39640 आर के महेन्द्र, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39657 सुनील के पांडे, ईएमई, 13 जून 2007
- 39667 ए के गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39671 आर एस घोत्रा, आर्टी, 13 जून 2007
- 39680 ए के चन्द्रा, आर्टी, 13 जून 2007
- 39688 के के त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39707 टी के चक्रवर्ती, आर्टी, 13 जून 2007
- 39717 सुधीर शर्मा, इन्जीनियर्स, 13 जून 2007
- 39718 रविन्द्रन रामध, आर्टी, 13 जून 2007
- 39721 कुल भूषण कौशल, आर्टी, 13 जून 2007
- 39727 संजीव पुरी, एसी, 13 जून 2007
- 39728 कंगारा राम, सिग्नल्स, 13 जून 2007
- 39729 ए के सतपती, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39731 रविन्द्र एन रामपाल, आर्टी, 13 जून 2007
- 39732 के राजागोपालन, एएडी, 13 जून 2007
- 39735 पी के राँय, आर्टी, 13 जून 2007
- 39745 अशोकन के, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39752 एस एस सराओ, इन्ट, 13 जून 2007
- 39755 बी एस बसराओ, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39762 ए बी राधाकृष्णन, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39763 आलोक चुतर्वेदी, आर्टी, 13 जून 2007
- 39766 सान्धना वर्धन आर, एएडी, 13 जून 2007
- 39770 एस सी दास, आर्टी, 13 जून 2007
- 39776 बी के आर विम्पले, आर्टी, 13 जून 2007
- 39786 पी के शर्मा, एएडी, 13 जून 2007
- 39788 उदय सिंह, गार्ड्स, 13 जून 2007
- 39790 रमेश उपाध्याय, आर्टी, 13 जून 2007
- 39795 ए के मैथानी, एओसी, 13 जून 2007
- 39815 माम्मन मथाई, आईसी, 13 जून 2007
- 39839 ए के मोहापात्रा, आईसी, 13 जून 2007
- 41447 एस के शर्मा, सिग्नल्स, 18 जून 2007
- 41459 बी के देसाई, ईएमई, 18 जून 2007
- 34784 सी एन गुरुंग, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
- 34914 जे पी शर्मा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 38390 रमनजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2005
- 39475 सतनाम सिंह, आर्टी, 13 जून 2007
- 39502 एन डी चौहान, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39612 टी एस पूनिया, ईएमई, 13 जून 2007
- 39615 यश पाल जागिया, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
- 39730 अबीर चौधरी, एएडी, 13 जून 2007
- 39741 के आर सुराराज, आर्टी, 13 जून 2007
- 39767 तपेश कन्वर, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007

39858 प्रवीन कुमार, आईसी, 13 जून 2007

एसएल-02795 रतन सिंह, एसएलआरओ, 27 जुलाई 2007

अजय गोयल

उप निदेशक

एम एस-8ए

सं. 76, दिनांक 28 जनवरी 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित को पदोन्नत करते हैं :--

स्थायी थल सेना : स्थायी कमीशन

स्थाई लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि स्थाई कर्नल होंगे (टीएस)

बी बिनर्जी आईसी-31293, सिगनल्स, 22 अगस्त 2007

राज पाल सिंह आईसी-36716, ईएमई, 22 अगस्त 2007

एन जी केशव आईसी-38211, एडी आर्टी, 22 अगस्त 2007

आशा आनन्द

उप निदेशक

गुआमनि/प्रशा-4

वायु सेना शाखा

सं. 77, दिनांक 25 जनवरी 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से प्रसन्नता पूर्वक निजी सचिव के पद पर पदोन्नति करते हैं :--

1. श्री एन गोपालकृष्णन	16 अक्टूबर 1996
2. श्री के एम चन्द्रन	24 अगस्त 2000
3. श्रीमती दारी मेलोडी ट्रेट	09 नवम्बर 2000
4. श्रीमती निरधा दास	18 अप्रैल 2002
5. श्री एम श्रीनिवासन	07 नवम्बर 2002
6. श्री ए के मल्होत्रा	14 नवम्बर 2003
7. श्री के हरिदासान	02 जून 2003
8. श्रीमती रंजित कौर	22 जुलाई 2003
9. श्री सी मुरुकन	07 जून 2005
10. श्री एस एन खुशु	07 जून 2005
11. श्री यु सी त्रिपाठी	07 जून 2005
12. श्री एस डी रामटेक	07 जून 2005
13. कुमारी एल रैन्जाह	07 जून 2005
14. श्री एच आर लखीवाल	10 मई 2006
15. श्रीमती सुनिता	10 मई 2006
16. श्री हरबंस लाल	07 सितम्बर 2006
17. श्री एच प्रमानिक	13 सितम्बर 2006
18. श्रीमती के जीवारथिनम	01 सितम्बर 2006
19. श्री एम एस एच बरभुइया	03 अप्रैल 2007
20. श्री वी आर शिवराजन	15 मई 2007
21. श्री एस सरस्वति	28 मई 2007
22. श्री मुकेश गौतम	06 अक्टूबर 2007

एस एम सेठी
निदेशक पी सी

सं. 78, दिनांक 30 जनवरी 2008--जी सी एम के द्वारा निम्नलिखित अधिकारी को सजा दी गई :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर वाई आर रैना (एमआर-06655एच), एएमसी/पीसी

(क) रैंक वरीयता के लिए 42 महीने की सेवा का समपहरण करना।

(ख) पदोन्नति के लिए 60 महीने की सेवा का समपहरण करना।

(ग) पेंशन के लिए 96 महीने की सेवा का समपहरण करना।

(घ) तीव्र भर्त्सना की जाए।

प्राख्यापन की तिथि

--3 मई 2003

जी रवीन्द्रनाथ

ब्रिगेडियर

सहा. डीजीएफएमएस (पर्स)

(सेना शाखा)

सं. 79, दिनांक 30 जनवरी 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

शुद्धिपत्र

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में पदोन्नति (समयमान द्वारा)

भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25 जून 2005 (भाग-1, खण्ड-4) के शीर्षक 'नियमित सेना, स्थायी आयोग' एवं 'उपशीर्षक मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)' में निम्नलिखित शुद्धिकरण किया जाता है :--

के लिए -- आईसी 41794 अनुज कुमार माथुर, ए एस सी
17-12-2003

पढ़ा जाए -- 17-12-2003

(परन्तु वेतन और भत्ता 06 जनवरी 04 से)

अजय गोयल

उप निदेशक

एम एस-8ए

सं. 80, दिनांक 28 जनवरी 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित को पदोन्नत करते हैं :--

स्थायी थल सेना : स्थायी कमीशन

संशोधन पत्र

दिनांक 01 सितम्बर 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन उप शीर्षक :--

स्थाई लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि स्थाई कर्नल होंगे

नाम के सामने	के लिये	पढ़ा जाये
शमशेर सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-38382	आईसी-38328

स्थाई मेजर जो कि स्थाई लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे

नाम के सामने	के लिये	पढ़ा जाये
जे एस बिबरा, ईएमई	आईसी-49332	आईसी-48332

आशा आनन्द

उप निदेशक

गुआमनि/प्रशा-4

MINISTRY OF DEFENCE

ARMY BRANCH

ADJUTANT GENERAL'S BRANCH

New Delhi, the 9th February 2008

No. 66, dated 28th January 2008—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following persons as Civilian Assistant Security Officers (Group B Gazetted), in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the dates shown against their names :—

Sr. No., Name and Date of Appointment

Shri Pichumani Kesavasarma, 20 September 2007

Shri Rameshwar Nath Singh Chauhan, 09 October 2007

Shri Ajay Kumar Gupta, 19 November 2007

Shri Vijay Rao, 23 November 2007

C J JOSE
Under Secy.DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 67, dated 30th January 2008—The President is pleased to make the following appointments:—

The undermentioned individuals to be temporary Scientists 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from the dates shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- :—

Name, Estt. and Date of Appointment

Shri Manohar Singh Jagat, ADRDE, Agra, 14 Apr 2005

Shri Priya Vrat Sharma, ADRDE, Agra, 27 April 2006

Shri Divya Kumar Garg, Anurag, Hyderabad, 14 Apr 2005

Shri Lahanu Karbhari Gite, ARDE, Pune, 6 Mar 2003

Ms. Sulekha Parkhi, ARDE, Pune, 17 Aug 2005

Shri Rajiv Kumar Singh, ARDE, Pune, 27 Apr 2006

Shri Surjeet Kumar Sinha, ASL, Hyderabad, 14 Apr 2005

Shri Sanjay Barua, ASL, Hyderabad, 16 Aug 2005

Shri Sunil Kumar Soni, DEAL, Dehradun, 27 Apr 2006

Ms Pooja Gupta, DEAL, Dehradun, 27 Apr 2006

Shri Imran Sharif, DEAL, Dehradun, 14 Apr 2005

Shri Krishna Kishore, DIPAS, Delhi, 17 Mar 2005

Shri Banothu Sreenu, DMRL, Hyderabad, 14 Apr 2005

Shri Satyanarayana Adalagatta, DMRL, Hyderabad,
14 Apr 2005

Shri S S Satheesh Kumar, DMRL, Hyderabad, 14 Apr 2005

Shri Chandra Shekhar Verma, DRDE, Gwalior, 27 Apr 2006

Ms Vandana Gautam, DRDE, Gwalior, 14 Aug 2006

Shri Rajendra Prasad Bunkar, DRDE, Gwalior, 6 Jun 2005

Shri Shiv Prakash Sharma, DRDE, Gwalior, 01 Jun 2005

Shri Abhishek Singh Shakya, DRDL, Hyderabad, 14 Apr
2005

Shri Rajesh Kumar, DRDL, Hyderabad, 14 Apr 2005

Ms Valasangandla Kamala, DRDL, Hyderabad, 14 Apr 2005

Shri Srinivasa Raju Sarikonda, DRDL, Hyderabad, 14 Apr
2005

Shri Chandrakanth Annam, DRDL, Hyderabad, 14 Apr 2005

Shri Saumen Banerjee, DRL, Tezpur (Assam), 26 Jul 2005

Dr. C Rajendran, DRL, Tezpur, 07 Jan 2004

Dr. Jadhav Sunil Ekanath, FRL, Leh, 2 Jun 2005

Dr. Dorje Angchok, FRL, Leh, 11 Apr 2005

Shri Hemandra Kumar Gogoi, HEMRL, Pune, 13 Jun 2005

Shri Bharat Bhushan Harit, HEMRL, Pune, 06 Sep 2004

Shri Daware Chetan Ramesh, HEMRL, Pune, 12 Apr 2005

Shri Saroj Kumar Sahoo, HEMRL, Pune, 14 Jun 2005

Shri Izaz Beg Mirza, ASL, Hyd, 14 Apr 2005

Shri Sudhir, HEMRL, Pune, 13 Jun 2005

Shri Anant Narayan Bhatt, INMAS, Delhi, 30 Mar 2005

Shri Harinath Yerra, ITM, Mussoorie, 06 mar 2003

Shri Anasuya Sahoo, ITR, Balasore, 25 Jan 2002

Ms Shalu Masan, LASTEC, Delhi, 22 Aug 2005

Shri G Sree Nagamaheshwar, LRDE, Bangalore, 14 Apr
2005Shri Ajai Kumar Shrivastava, LRDE, Bangalore, 14 Apr
2005

Shri Bhishm Tripathi, LRDE, Bangalore, 14 Apr 2005

Ms Rashmi Jain, LRDE, Bangalore, 14 Apr 2005

Shri Kailash Chand Saini, NMRL, Ambernath, 14 Apr 2005

Shri Vedachari Yedidi, NSTL, Visakhapatnam, 14 Apr 2005

Shri Firake Sachin Narayan, R&DE (E), Pune, 12 Apr 2004

Shri Bansode Aravind Fakirappa, R&DE (E), Pune,
27 Apr 2006

Shri Kesava Rao Chittimadi, RCI, Hyderabad, 14 Apr 2005

Shri Rajesh Kumar Reddy, RCI, Hyderabad, 14 Apr 2005

Shri Bandi Jyotsna, RCI, Hyderabad, 14 Apr 2005

Shri Arindam Das, RCI, Hyderabad, 14 Apr 2005

Ms Smrita Singh, WESEE, New Delhi, 14 Apr 2005

Ms Shruti Sharma, DIPR, Delhi, 08 Jun 2005

V P PANDEY
Associate Director

ARMY BRANCH

No. 68, dated 30th January 2008—The President is pleased to make the following appointments for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Capt on probation)

Capt Kurmayyagari Gopinath (MS-15429M), AMC—22 Jan 2007

Capt Warthe Ashok Bhimrao (MS-15437L), AMC—22 Jan 2007

Capt Trinayan Kumar Singh (MS-15449A), AMC—22 Jan 2007

Capt Oke Shailesh Kartik (MS-15492F), AMC—20 Mar 2007

Capt Sudeep Kumar (MS-15553N), AMC—17 Apr 2007

Capt Sachin Kumar Dubey (MS-15555Y), AMC—17 Apr 2007

Capt Kedar Pradeep Mahadea (MS-15385A), AMC—20 Sep 2006

To be Capt

Capt Rakesh Kumar Gautam (MS-15393Y), DOC—22 Sep 2006

with seniority for pay and promotion from 22 Sep 2004 (this includes 24 months antedate for PG Diploma in Anaesthesiology which will not count for gratuity).

Capt Chetna Arora (MS-15392W), DOC—22 Sep 2006

with seniority for pay and promotion from 22 Sep 2003 (this includes 36 months antedate for Doctor of Medicine (Community Medicine) which will not count for gratuity).

Capt Bharat (MS-15391N), DOC—22 Sep 2006

with seniority for pay and promotion from 22 Sep 2003 (this includes 36 months antedate for Master of Surgery which will not count for gratuity).

Capt Sandeep Rana (MS-15387L), DOC—22 Sep 2006

with seniority for pay and promotion from 22 Sep 2004 (this includes 24 months antedate for PG Diploma in anaesthesiology which will not count for gratuity).

Capt Gajbhiye Dewendra Janba (MS-15244L), DOC—21 Apr 2006

with seniority for pay and promotion from 21 Oct 2002 (this includes 42 months antedate (36 months for Doctor of Medicine (Anaesthesia) and six months for house job) which will not count for gratuity).

Capt Ramesh Das (MS-15243H), DOC—21 Apr 2006

with seniority for pay and promotion from 21 Oct 2002 (this includes 36 months antedate seniority for Master of Surgery (General Surgery) and 06 months for house job which will not count for gratuity. (Total 42 months ante-date seniority).

Capt Pankaj Kumar Gogoi (MS-15242A), DOC—21 Apr 2006

with seniority for pay and promotion from 21 Apr 2003 (this includes 36 months antedate seniority for Master of Surgery (General Surgery) which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Lt on probation)

Lt Nilabh Kumar Singh (MS-15540W), AMC—26 Mar 2007

Lt Sudip Azad (MS-15546X), AMC—26 Mar 2007

Lt Sonam Singh Sachan (MS-15547A), AMC—26 Mar 2007

Lt Manoj Kumar (MS-15504L), AMC—26 Mar 2007

Lt Manmeet Singh Randhawa (MS-15510Y), AMC—26 Mar 2007

Lt Sujeet Sekhar Sinha (MS-15513M), AMC—26 Mar 2007

Lt Ranjit (MS-15515X), AMC—26 Mar 2007

The President is pleased to make the following appointment under AI 40/73 with effect from 20 Mar 2007, in AMC/SSC (Non Tech) :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

As Lieutenant wef 20 Mar 2007 (On Probation)

Rank, Name, Old number and allotted personal number and Date of Commission

Hav Hari Das V (13969699L now NTS-17544L), 20 Mar 2007

Hav Birendra Singh Bisht (13982284P now NTS-17545N),
20 Mar 2007

Hav Upendra Singh Chauhan (13985159W now NTS-17546W), 20 Mar 2007

NK Thomas Kurian (13988319W now NTS-17547Y),
20 Mar 2007

NK Vimesh Kumar TM (13998556N now NTS-17548F),
20 Mar 2007

NK Lakshmi Pathi (13998879W now NTS-17549K),
20 Mar 2007

NK Sashi Kant (13999349N now NTS-17550Y), 20 Mar
2007

Sep Kailash Chandra Khichar (13994902F now NTS-17551F), 20 Mar 2007

Sep Riyaz (13999306Y now NTS-17553M), 20 Mar 2007

Sep Deepak Rao, S (15411124P now NTS-17554P),
20 Mar 2007

Sep Jianlungpou Gangmei (15411397X now NTS-17555M), 20 Mar 2007

Sep Manil Kumar Yadav (15412300N now NTS-17556A),
20 Mar 2007

The President is pleased to make the following appointments for a period of 5 years under AI 75/78 as amended.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Flt Lt on probation)

Flt Lt Jaya Tewari (MS-15477M) 28888, AMC—22 Jan 2007

Flt Lt Amar Varshney (MS-15482X), AMC—22 Jan 2007

Flt Lt Manabendra Adhikary (MS-15551H) 28891G, AMC—20 Mar 2007

Flt Lt Safia Ahmed (MS-15552L) 28904R, AMC—17 Apr 2007

Flt Lt Jyoti Devi (MS-15559P) 28866H, AMC—22 Sep 2006

To be Flt Lt

Flt Lt Sachin Rathore (MS-15390L) (AF-28868R), DOC—22 Sep 2006

With seniority for pay and promotion from 22 Sep 2003 (this includes 36 months antedate for Master of Surgery (Ophthalmology) which will not count for gratuity).

Flt Lt Sanchita Singh (MS-15475F) (AF-28879F), DOC—22 Jan 2007

With seniority for pay and promotion from 22 Jul 2006. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named offices is hereby cancelled).

To be Capt

Capt Tapash Biswas (MS-15440L), DOC—22 Jan 2007

With seniority for pay and promotion from 22 Jul 2006. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named offices is hereby cancelled).

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Fg Offr on probation)

Fg Offr Mustajib Ali (MS-15496X) 28892K, AMC—26 Mar 2007

Fg Offr Varun Jain (MS-15500P) 28901F, AMC—26 Mar 2007

G RAVINDRANATH

Brig

Dy. DGAFMS (Pers)

INTEGRATED HEADQUARTERS—MINISTRY OF DEFENCE (NAVY)

(Dte of Admin/Civ Section)

No. 69, dated 25th January 2008—The President is pleased to appoint the following Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period mentioned against their names, or till regular incumbent becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier:—

Shri PN Valecha, 30 Nov 2007 to 23 Feb 2008

Smt Sudesh Ailawadi, 30 Nov 2007 to 23 Feb 2008

Shri VV Mishra, 30 Nov 2007 to 23 Feb 2008

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SHANKAR SINGH

Dy. Chief Administration Officer (A)

AIR BRANCH

No. 70, dated 29th January 2008—The President is pleased to award Provisional Short Service Commission to the undermentioned U/T officers wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Prabodh Shukla (28363) and Anand Swaroop Awasthi (28364) wef 05 Jan 2005

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

U/T OFFICERS TO BE FG OFFR

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Prabodh Shukla (28363) and Anand Swaroop Awasthi (28364) wef 17 Dec 2005.

N VIJAY KUMAR

Wg Cdr

JDPO-3(D)

(ARMY BRANCH)

No. 71, dated 29th January 2008.—The President is pleased to confirm the undermentioned AMC/PC (Non Tech) officers consequent on completion of the probationary period:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Pers No., Rank, Name and Date of Commission

NTR-16711K Capt Mohan Singh Kapkoti, 28 Apr 2005

NTR-16712M Capt Jayavelu. S., 28 Apr 2005

NTR-16723Y Capt Virendra Kumar Pandey, 28 Apr 2005

NTR-16703L Capt Manoj KV, 02 Apr 2004

NTR-16705W Capt Shaik Jameer Ahmed 02 Apr 2004

NTR-16715A Capt Kailas PS, 28 Apr 2005

NTR-16716H Capt Sunil Y, 28 Apr 2005

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

NTS-17499K Capt Rajesh Kumar, 02 Apr 2004

NTS-17505M Capt Rajender Singh, 02 Apr 2004

NTS-17542A Lt Santhosh CH, 07 Apr 2006

NTS-17543H Lt Ram Krashan Pratap Singh Sisodiya, 07 Apr 2006

NTS-17506P Capt Narendra Singh, 28 Apr 2005

NTS-17528N Lt Subhash Ram, 07 Apr 2006

NTS-17532W Lt John Baby, 07 Apr 2006

NTS-17537P Lt Shijimon Mathew, 07 Apr 2006

✓ NTS-17538X Lt Amar Nath Rai, 07 Apr 2006

NTS-17539A Lt Amit Singh, 07 Apr 2006

NTS-17536M Lt Prasad M Kurup, 07 Apr 2006

G RAVINDRANATH

Brig

Dy. DGAFMS (Pers)

AIR BRANCH

No. 72, dated 29th January 2008—The President is pleased to confirmed the undermentioned award officers wef the date stated against their names who were granted Short Service Commission (On Probation).

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Asha Chikkanna (28365) wef 17 Dec 2005.

The President is pleased to confirmed the undermentioned award officers wef the date stated against their names who were granted Permanent Commission.

INDIAN AIR FORCE

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Prabodh Shukla (28363) and Anand Swaroop Awasthi (28364) wef 17 Dec 05.

The President is pleased to confirmed the undermentioned award officers wef the date stated against their names who were granted Permanent Commission and Wings (On Probation).

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr S Venkataramanan (28650), Rahul Jagotta (28651), Jadhav Mandar Govind (28652), Pankaj Dhiman (28653), Amit Gehani (28654), Aditya Dutta Roy (28655), Thakurdas Ninad Shrikant (28656), Praveer Shukla (28657), Pakalapati Sitarama Narendra Varma (28658), Chetan Pradeep Deshpande (28660), Singh Abhimanyu Cheetri (28661), Gaurav Singh (28662), Taranjeet Aroun (28663), Gurpreet Singh (28664), Nukathota Narasimha Prajyota (28665), Anupam Yadav (28667), Jitender Kumar Makkar (28668), Arun Kumar (28669), Dheeraj Kumar (28670), Tarun Pandit (28671), Dharendra Singh Jayara (28672), Besetti Bhasker Kiran (28673), Gaurav Shukla (28674), Vivek Paliwal (28675), Arun Chandan (28676), RL Nagesh Kumar (28677), Digvijay Singh Katoch (28678), Amol Sudhir Kelkar (28679), Vipul Goyal (28680), Jinu Praveen Karthedath (28681), Ramu Rajendran (28682), Rishi Kumar (28683), Anuj Prasad (28684), Sourabh Adhicary (28685) and Siddharth Sharma (28686), Barbinder Singh (28687), Vikrant Bharadwaj (28688), Animesh Patni (28689), Shankar Thapa (28690), Nikhil Bhatt (28691), Vivek Chauhan (28692), Fernandes Sydney Edward (28693).

Asutosh Dash (28694), Pramendra Mor (28695), Shiju Raj (28696), Anil Ahlawat (28697), Robin Sebastian (28698), Ankit Uniyal (28699), Varun Vakil (28700), Kumar Gaurav Garg (28701), Mandeep Bhar (28702), Shubham Misra (28704), Ankur Choudhary (28705), Y Chaithanya (28706), Hardeep Singh Rana (28707), Mohit Rana (28708), Sanket Dogra (28709), Mayank Paliwal (28710), Abhinav Bhattacharya (28711), Shantanu Verma (28712), Abdulsamad Page (28713), Gaurav Preet Singh Brar (28714), Deeravath Sudhakar (28715), Seeniappan Selva Kumar (28716), Rahul Gupta (28717), Vikas Bargat (28718), Bharat Bhandari (28720), Rajat Sharma (28721), Ashwini Kumar Pandey (28722) and Sumit Dobhal (28724) wef 17 Dec 2005.

N VIJAY KUMAR
Wg Cdr
JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 73, dated 24th January 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

ARMoured CORPS

(To be Substantive Risaldar Major)

Ris Gurmit Singh (JC-238045N), 01 Jul 2005

Ris Rohtas Singh (JC-237900L), 09 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Ris Rajender Pal (JC-236986H), 12 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Ris Balbir Singh (JC-238738L), 01 Sep 2006

Ris Kuldeep Singh Verma (JC-239140M), 01 Dec 2006

Ris Bhopal Singh (JC-236554N), 01 Dec 2006

Ris Sheoraj Singh Panwar (JC-236889L), 01 Dec 2006

Ris Malam Singh (JC-239114L), 23 Dec 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Ris Mahesh Chandra (JC-238367N), 02 Feb 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Ris Sheo Bahadur Singh (JC-238637X), 02 Feb 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances)

Ris Ram Bharosi Verma (JC-239493M), 21 Feb 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Ris Ram Singh Bhati (JC-237330A), 01 Mar 2007

Ris Tarlochan Singh (JC-238711N), 06 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Ris Krishan Lal (JC-238005M), 11 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Ris Bhanwar Singh Rathore (JC-239502H), 03 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Ris Roshan Lal Sharma (JC-238018K), 05 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Ris Mahesh Chandra (JC-238623X), 08 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Ris Angrej Kumar (JC-238761Y), 01 May 2007

Ris Jai Singh (JC-238142L), 15 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Ris Dewa Ram Jat (JC-237951Y), 17 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Ris Harendra Singh (JC-239300F), 01 Sep 2007

REGULAR ARMY

To be Nb Ris

Dfr Samunder Singh (No 01076459W now JC-242168X), 07 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr Natha Ram Chowdhary (No 01077024A now JC-242171X), 05 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr Chandra Sekaran K (No 01074432A now JC-242176W), 01 May 2007*

Dfr Abraham Samad (No 01077230K now JC-242177Y), 10 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr Subhash Chander (No 01077787W now JC-242179K), 03 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr Bant Singh (No 01077384W now JC-242180Y), 01 May 2007

Dfr Madan Lal (No 01077542A now JC-242181F), 03 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr Birendar Singh (No 01076910X now JC-242184P),
14 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2007
without effect on pay and allowances)

Dfr Shiv Ram Sharma (No 01073831X now JC-242186A),
01 May 2007

Dfr M D Veli Mohamad (No 01075653Y now JC-242187H),
01 May 2007

Dfr Aditya Karmakar (No 01075761H now JC-242188L),
01 May 2007

Dfr Doofat Ram (No 01078192L now JC-242190H),
01 May 2007

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Ram Phal (JC-418484F), 01 Nov 2007

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Jumshed Khan (JC-419553Y), 25 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Jun
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pawar Rajendra Kumar Vinayak (JC-419957F),
23 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Jun
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kailash Chand (JC-420190M), 13 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Aug
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mohanan Kumar P (JC-419539M), 12 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 04 Aug
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Suresh Kumar (JC-420262L), 20 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Sep
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vijayan K (JC-420301Y), 25 Sept 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Sep
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jatin Kumar Nath (JC-420245L), 29 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Oct
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Khem Bahadur Thapa (JC-420247W), 11 Oct
2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Oct
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Bahadur (JC-419509P), 01 Nov 2007

Nb Sub Ram Lachhan (JC-419629N), 01 Nov 2007

Nb Sub Pavanan V (JC-419910W), 01 Nov 2007

Nb Sub Som Raj (JC-420013M), 01 Nov 2007

Nb Sub Lal Chand (JC-420115H), 01 Nov 2007

Nb Sub Subhash Chand (JC-420116L), 01 Nov 2007

Nb Sub Born Bahadur Thapa (JC-420308H), 01 Nov 2007

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Naresh Singh (JC-418805N), 01 Oct 2007

Sub Mohan Chandra Joshi (JC-418947L), 01 Oct 2007

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Kashor Lal (JC-419184M), 23 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Mar
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharam Pal (JC-419410Y), 24 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 17 Apr
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Wazir Singh (JC-419577H), 13 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Jul
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chandra Shekhar Yadav (JC-419911Y), 01 Oct
2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Jul
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Avtar Singh Baghel (JC-420058M), 26 Jul
2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Jul
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satya Bhan Prasad (JC-420101H), 08 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Aug
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bal Bahadur (JC-420161X), 16 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Aug
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Somappa Chandrappa Vyaparagi (JC-420185F),
24 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Aug
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shyam Mohan (JC-420072A), 08 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Sep
2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tej Bahadur Thapa (JC-420244H), 01 Sep 2007

Nb Sub Anil Kumar R (JC-419633W), 01 Oct 2007

Nb Sub Tarsem Singh (JC-419791L), 01 Oct 2007

Nb Sub Amar Singh (JC-420012K), 16 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vinod Kumar Singh (JC-420085W), 01 Oct 2007

Nb Sub Khub Ram (JC-420088K), 01 Oct 2007

Nb Sub Prakash Singh (JC-420273X), 01 Oct 2007

J. R. CHOWDHURY
Under Secy.

No. 74, dated 30th January 2008.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Lt to Capt

Rank, Name, Personal No. and Date of Promotion

Lt Ravinder Jambhile (NTS-17525A), 28 Apr 2007

ARMY MEDICAL CORPS

Surg Lt to Surg Lt Cdr

Surg Lt Umakanta Beriha (MS-14401A) (75799W), 01 Mar 2006

Surg Lt Anju Kumari (MS-14594L) (75816H), 24 Sep 2006

Surg Lt Kirupakara Krishnan D (MS-14575A) (75814B), 08 Mar 2007

Surg Lt Ashank Airan (MS-14596W) (75817K), 28 Mar 2007

Surg Lt Amitabh Mehta (MS-14617F) (75818N), 03 Apr 2007

Surg Lt Madhuri Matta (MS-15247Y) (75923A), 21 Apr 2007

G. RAVINDRANATH
Brig
Dy DGAFMS (Pers)

No. 75, dated 30th January 2008.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

Pers No., Name, Arm and Subs Date

IC-37768 Dinkar Adeeb, Jag—01 Oct 2005

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

IC-36738H Lt Col Mohinder Singh, Inf—16 Dec 2004

IC-37151W Lt Col Chaturbhuj Nath, Sigs—16 Dec 2004

IC-37748Y Lt Col Susheel Sharma, Engrs—29 Apr 2007

IC-38624W Lt Col RK Pandey, AEC—22 Dec 2005

IC-38999P Lt Col Baldev Chandra, Arty—07 Jun 2006

IC-39498F Lt Col Prabhas Chandra, Guards, 13 Jun 2007

IC-39597K Lt Col SN Ubgade, Arty—13 Jun 2007

IC-39713F Lt Col Kishore Uppal, Arty—13 Jun 2007

IC-41441L Lt Col Pradeep Mathur, Sigs—18 Jun 2007

IC-41446K Lt Col Ram Kumar Dubey, Sigs—18 Jun 2007

SL-02650M Lt Col Adhip Majumdar, APTC—16 Dec 2004

IC-31280A Lt Col RK Chaudhary, AEC—16 Dec 2004

IC-31367F Lt Col R P Singh, Inf—16 Dec 2004

IC-33330Y Lt Col S K Mishra, Mech Inf—16 Dec 2004

IC-33611P Lt Col S P Singh, Inf—16 Dec 2004

IC-35161F Lt Col R K Talukdar, Inf—16 Dec 2004

IC-35325M Lt Col S D Gurung, Arty—16 Dec 2004

IC-37430F Lt Col Pramod Kumar, Arty—01 May 2005

IC-37564A Lt Col DPS Thalor, Inf—30 Apr 2006

IC-37631A Lt Col Virender Kumar, Arty—30 Apr 2006

IC-37728L Lt Col Anil Tandon, AOC—14 Nov 2006

IC-37774A Lt Col Ramesh B Chirumamilla, Inf—29 Apr 2007

IC-37775H Lt Col Raj Kumar Rahul, Int—29 Apr 2007

IC-38591W Lt Col A K Vaid, AC—22 Dec 2005

IC-38692K Lt Col Tarun C Borah, Inf—07 Jun 2006

IC-38932W Lt Col Ravi V, Arty—07 Jun 2006

IC-39040X Lt Col Rajinder Kumar, Engrs—16 Dec 2004

IC-39743Y Lt Col PS Sarna, Inf—13 Jun 2007

IC-39821L Lt Col Pala Ram, AEC—13 Jun 2007

IC-39827M Lt Col J S Dhiman, AEC—13 Jun 2007

IC-41454H Lt Col G Mahadeven, Sigs—18 Jun 2007

SL-3582W Lt Col Jaipal Singh Hooda, SL QM—13 Jun 2007

SL-2741W Lt Col N P Sharma, APTC—16 Dec 2004

IC-27250L Lt Col S K Kaul, Guards, 16 Dec 2004

IC-36145W Lt Col Provir Singh, AOC—16 Dec 2004

IC-37666W Lt Col Satnam Singh, Arty—30 Apr 2006

IC-38864N Lt Col Uday Shankar, Inf—07 Jun 2006

IC-38875A Lt Col B S Chaudhuri, Inf—07 Jun 2006

IC-39474X Lt Col Shashi Rana, Inf—13 Jun 2007
 IC-39477L Lt Col P C Chandel, Arty—13 Jun 2007
 IC-39503F Lt Col Deepak Kumar Pun, ASC—13 Jun 2007
 IC-39514N Lt Col Shyam Kumar, AAD—13 Jun 2007
 IC-39527L Lt Col Vivek Chaudhry, Arty—13 Jun 2007
 IC-39531N Lt Col B J S Hansra, Inf—13 Jun 2007
 IC-39534F Lt Col U C Dubey, AAD—13 Jun 2007
 IC-39541X Lt Col T Divakaran, Arty—13 Jun 2007
 IC-39553M Lt Col A S Grewal, Inf—13 Jun 2007
 IC-39561L Lt Col S C Sharma, Arty—13 Jun 2007
 IC-39589L Lt Col Malara Trilok Singh, Arty—13 Jun 2007
 IC-39599P Lt Col D S Bhati, Inf—13 Jun 2007
 IC-39602K Lt Col Ravinder Mohan Gaur, Mech Inf—13 Jun 2007
 IC-39611L Lt Col S K Joshi, Inf—13 Jun 2007
 IC-39622X Lt Col P K Thomas, Mech Inf—13 Jun 2007
 IC-39629F Lt Col Ram Kumar, Arty—13 Jun 2007
 IC-39640A Lt Col R K Mahindru, Inf—13 Jun 2007
 IC-39657N Lt Col Sunil K Pandey, EME—13 Jun 2007
 IC-39667X Lt Col A K Gupta, Inf—13 Jun 2007
 IC-39671A Lt Col R S Ghotra, Arty—13 Jun 2007
 IC-39680F Lt Col A K Chandra, Arty—13 Jun 2007
 IC-39688N Lt Col K K Tripathi, Inf—13 Jun 2007
 IC-39707N Lt Col T K Chakravarty, Arty—13 Jun 2007
 IC-39717X Lt Col Sudhir Sharma, Engrs—13 Jun 2007
 IC-39718A Lt Col Ravindran Ramath, Arty—13 Jun 2007
 IC-39721A Lt Col Kul Bhushan Kaushal, Arty—13 Jun 2007
 IC-39727F Lt Col Sanjiv Puri, AC—13 Jun 2007
 IC-39728K Lt Col Khangara Ram, Sigs—13 Jun 2007
 IC-39729M Lt Col A K Satpathy, Inf—13 Jun 2007
 IC-39731K Lt Col Ravindra N Rampal, Arty—13 Jun 2007
 IC-39732M Lt Col K Rajagopalan, AAD—13 Jun 2007
 IC-39735A Lt Col P K Roy, Arty—13 Jun 2007
 IC-39745K Lt Col Ashokan K, Inf—13 Jun 2007
 IC-39752A Lt Col S S Sarao, Int—13 Jun 2007
 IC-39755N Lt Col B S Basraon, Inf—13 Jun 2007
 IC-39762K Lt Col A B Radhakrishnan, Inf—13 Jun 2007
 IC-39763M Lt Col Alok Chaturvedi, Arty—13 Jun 2007

IC-39766A Lt Col Santhana Varadan R, AAD—13 Jun 2007
 IC-39770H Lt Col S C Das, Arty—13 Jun 2007
 IC-39776K Lt Col V K R Pimple, Arty—13 Jun 2007
 IC-39786N Lt Col P K Sharma, AAD—13 Jun 2007
 IC-39788Y Lt Col Uday Singh, Guards—13 Jun 2007
 IC-39790W Lt Col Ramesh Upadhyay, Arty—13 Jun 2007
 IC-39795P Lt Col A K Maithani, AOC—13 Jun 2007
 IC-39815X Lt Col Mammen Mathai, AEC—13 Jun 2007
 IC-39839F Lt Col A K Mohapatra, AEC—13 Jun 2007
 IC-41447M Lt Col S K Sharma, Sigs—18 Jun 2007
 IC-41459F Lt Col B K Desai, EME—18 Jun 2007
 IC-34784Y Lt Col C N Gurung, Inf—16 Dec 2004
 IC-34914W Lt Col J P Sharma, Arty—16 Dec 2004
 IC-38390X Lt Col Ramanjit Singh, Inf—22 Dec 2005
 IC-39475A Lt Col Satnam Singh, Arty—13 Jun 2007
 IC-39502Y Lt Col N D Chauhan, Inf—13 Jun 2007
 IC-39612N Lt Col T S Poonia, EME—13 Jun 2007
 IC-39615F Lt Col Yash Pal Jagia, Inf—13 Jun 2007
 IC-39730F Lt Col Abir Choudhury, AAD—13 Jun 2007
 IC-39741N Lt Col K R Suraraj, Arty—13 Jun 2007
 IC-39767H Lt Col Tapeshe Kanwar, Inf—13 Jun 2007
 IC-39858M Lt Col Praveen Kumar, AEC—13 Jun 2007
 SL-02795X Lt Col Rattan Singh, SL (RO)—27 Jul 2007

AJAY GOEL
 Dy Dir
 MS-8A

No. 76, dated 28th January 2008—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Sub Lt Col to be Sub Col (TS)

IC-31293 B Banerjee, Sigs—22 Aug 2007
 IC-36716 Raj Pal Singh, EME—22 Aug 2007
 IC-38211 N G Keshav, AD Arty—22 Aug 2007

ASHA ANAND
 Dy. Director
 DGQA/Adm-4

AIR FORCE BRANCH

No. 77, dated 25th January 2008—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Private Secretary

Sh. N Gopalakrishnan, 16 Oct 1996
 Sh. K N Chandran, 24 Aug 2000
 Smt. Dari Melody Tryte, 09 Nov 2000
 Smt. Snigdha Das, 18 Apr 2002
 Sh. M Sreenivasan, 07 Aug 2002
 Sh. A K Malhotra, 14 Nov 2003
 Sh. K Haridasan, 02 Jun 2003
 Smt. Ranjeet Kaur, 22 July 2003
 Sh. C Murukan, 07 Jun 2005
 Sh. S N Khushoo, 07 Jun 2005
 Sh. U C Tripathi, 07 Jun 2005
 Sh. S D Ramteke, 07 Jun 2005
 Kum. Lasuktimai Rynjah, 07 Jun 2005
 Sh. H R Lakhiwal, 10 May 2006
 Smt. Sunita, 10 May 2006
 Sh. Harbans Lal, 07 Aug 2006
 Sh. H Pramanik, 13 Sep 2006
 Smt. K Jeevarathinam, 01 Sep 2006
 Sh. M S H Barbhuiya, 03 Apr 2007
 Sh. V R Shivrajan, 15 May 2007
 Sh. S Saraswathi, 28 May 2007
 Sh. Mukesh Gautam, 06 Oct 2007

S. M. SETHI
 Dir(PC)

ARMY BRANCH

No. 78, dated 30th January 2008—The undermentioned officer was awarded the following punishment by the GCM:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj Y R Raina (MR-06655H), AMC/PC

- Forfeiture of seniority or rank 42 months.
- Forfeiture of service for promotion 60 months.
- Forfeiture of service for pension 96 months.
- Severe Reprimand.

Date of Promulgation: 03 May 2003

G. RAVINDRANATH
 Brig
 Dy. DGAFMS (Pers)

No. 79, dated 30th January 2008

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification dated 25 Jun 2005 (Part-I, Section-IV) under the heading "Regular Army, Permanent Commission" and Sub-heading "Majors to be Substantive Lt Cols (By Time Scale)", the following amendment is made:—

Against : IC-41794 Anuj Kumar Mathur, ASC

For : 17 Dec 2003

Read : 17 Dec 2003

(But Pay & Allowances wef 06 Jan 2004).

AJAY GOEL
 Dy. Dir.
 MS-8A

No. 80, dated 28th January 2008—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

CORRIGENDUM

In Ministry of Defence Gazette Notification published in Gazette of India on 01 Sep 2007 under the heading "Regular Army, Permanent Commission" for Sub Heading:—

Substantive Lt Colonel to be Substantive Colonel

Against the name of : Shamsher Singh, Inf

For : IC-38382

Read : IC-38328

Substantive Maj to be Substantive Lt Colonel

Against the name of : J S Bibra, EME

For : IC-49332

Read : IC-48332

ASHA ANAND
 Dy. Director
 DGQA/Adm-4

No. 81, dated 24th January 2008

CORRIGENDUM

In the Ministry of Defence Notification No. 345 dated 15 June 2007 published in the Gazette of India Serial No. 27, dated 07 June 2007 under heading "Regular Army" Sub heading "Infantry" The Mechanised Infantry Regiment below:—

To be Naib Subedar

- For : Hav Ashim Kumar Paul (No. 14911511W now JC-420649N), 01 Jan 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).
- Read : Hav Ashim Kumar Paul (No. 14911511W now JC-420649N), 01 Jan 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).
- For : Hav Mohandas Palathumannil (No. 14911002X now JC-420653W), 14 Feb 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).
- Read : Hav Mohandas Palathumannil (No. 14911002X now JC-420653W), 14 Feb 2007*
- *(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

In the Ministry of Defence Notification No. 390, dated 29 June 2007 published in the Gazette of India Serial No. 30, dated 28 July 2007 under heading "Regular Army" Sub heading "Infantry" The Mechanised Infantry Regiment below:—

To be Substantive Subedar (GD)

- For : Nb Sub Desh Raj (JC-419925Y), 06 Oct 2006*
- *(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major with effect from 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).
- Read : Nb Sub Desh Raj (JC-419925Y), 06 Oct 2006*
- *(Granted seniority in the rank of substantive Subedar with effect from 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).
- For : Nb Sub Buddha Raj (JC-419917A), 20 Feb 2007*
- *(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major with effect from 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances).
- Read : Nb Sub Buddha Raj (JC-419917A), 20 Feb 2007*
- *(Granted seniority in the rank of substantive Subedar with effect from 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances).
- For : Nb Sub Hem Singh (JC-419923N), 20 Mar 2007*
- *(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).
- Read : Nb Sub Hem Singh (JC-419923N), 20 Mar 2007*
- *(Granted seniority in the rank of substantive Subedar with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

J. R. CHOWDHURY
Under Secy.